

बच्चे के साथ सुरक्षित यात्रा करना

हरेक बार कार में जाते समय सभी बच्चों के बकल बांधकर रखें।

नवजात शिशु

- ★ ये उल्टी दिशा वाली कार सीट या कैप्सूल में होने चाहिए।
- ★ कार में जाते समय बच्चे को कभी भी अपनी गोदी में न रखें।



ऑस्ट्रेलियाई मानक

- ★ ऑस्ट्रेलिया में विदेशों से लाई गई कार सीटों का उपयोग करना गैर-कानूनी है।
- ★ बच्चों के लिए सभी कार सीटें ऑस्ट्रेलियाई मानक AS/NZS 1754 के अनुरूप होनी चाहिए।
- ★ अपने बच्चे की कार सीट या कैप्सूल पर इनमें से किसी एक स्टिकर के लिए देखें।



ऐसी कार सीट का उपयोग न करें जो पहले कभी किसी दुर्घटना में शामिल हुई हो



सेकंड हैंड कार सीटें

यदि आप सेकंड हैंड कार सीट का उपयोग कर रहे/रही हैं, तो इन बातों की जांच करना महत्वपूर्ण है:


- ★ सीट पहले किसी दुर्घटना में शामिल नहीं रही है
- ★ इसके सभी हिस्से मौजूद हैं (निर्देश पुस्तिका सहित)
- ★ ठीक से काम कर रही है
- ★ 10 साल से अधिक पुरानी नहीं है

बच्चे के साथ सुरक्षित यात्रा करना

यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे की कार सीट आपकी कार में सही ढंग से इंस्टॉल की गई है और आपके बच्चे के लिए ठीक से फिट होती है।

उल्टी दिशा वाली कार सीट या कैप्सूल को इंस्टॉल करना

- ★ कार सीट बेल्ट के साथ फिट किए गए उल्टी दिशा वाले रिस्ट्रैट के लिए बच्चे की सीट पर ब्लू बेल्ट पाथ का उपयोग करना चाहिए और बकलों को मजबूती से बांधा जाना चाहिए।
- ★ यह ज़रूरी है कि टॉप टेडर मजबूती से कार से जुड़े हों।
- ★ यह ज़रूरी है कि शिशु का मुंह पीछे की ओर हो और उसके कंधे सीट पर बने कंधे की ऊंचाई के निशान तक जाते हों।
- ★ यह ज़रूरी है कि हार्नेस स्ट्रैप्स शिशु के कंधों पर या थोड़ा सा ऊपर हों।



यह ज़रूरी है कि स्ट्रैप्स में घुमाव न हों



यह ज़रूरी है कि स्ट्रैप्स मजबूत हों

सहायता कहाँ से प्राप्त करें

- ★ Kidsafe SA आपके बच्चे की सीट को फिट कर सकता है और आपको इसका उपयोग करने का तरीका सिखा सकता है (शुल्क लागू होगा)।
- ★ Kidsafe SA आपके नवजात शिशु के लिए बच्चों के कैप्सूल किराए पर भी देता है (शुल्क लागू होगा)।

और अधिक जानकारी के लिए कृपया यहाँ जाएँ

kidsafesa.com.au

(08) 7089 8554

enquiries@kidsafesa.com.au

Kidsafe Centre, Hilton
6/69 Sir Donald Bradman Drive
Hilton SA में आएँ।

[f](#) [@](#) [t](#) [v](#) YouTube


Child Accident Prevention Foundation of Australia